



कर्ण फूल

गुन गुन, प्रिय के गुन-गन गाने
बन गया मधुप-मन कर्णफूल !

८९९.५
नरीक

ले०

नरेन्द्र